



पशुधन द्वारा  
जीवन में गुणात्मक सुधार



बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

# चिकन खाईये

भारतीय चिकित्सा परिषद्

चिकन खाने से शरीर में  
रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है!  
(चिकन प्रोटीन का सबसे सुरक्षित एवं सस्ता श्रोत है)



'भारतीय पॉल्ट्री उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित है'  
केन्द्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान (सी.ए.आर.आई., इज्जतनगर, बरेली, उ.प्र.)

'पॉल्ट्री उत्पादों को कोरोना संक्रमण फैलाने में  
शामिल नहीं पाया गया है'

भारत सरकार

'चिकन खाने और कोरोना संक्रमण  
फैलने में कोई संबंध नहीं है'

पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन (ओ.ई.आई.)

'चिकन खाने से कोरोना संक्रमण  
नहीं फैलता है'

भारतीय खाद्य सुरक्षा और स्थायी प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.)



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार द्वारा जनहित में प्रचारित